



सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस

दिनांक - 01.02.2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री चक्रेश मिश्र के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 01.02.2021 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

अवैध शस्त्र व अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 01

अभियुक्त गिरफ्तार थाना धनारी

आज दिनांक 01.02.2021 को थाना धनारी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जंगल ग्राम कृतिया से अभियुक्त भूरे को मय अवैध शस्त्र व अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना धनारी पर निम्न अभियोग पंजीकृत किये गये।

अभियुक्त का नाम:-

भूरे पुत्र गुलाब सिंह नि0 ग्राम कृतिया थाना धनारी जनपद सम्भल।

पंजीकृत अभियोग-

- 1.मु0अ0सं0-12/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धनारी।
- 2.मु0अ0सं0-13/21 धारा 60 आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि थाना धनारी।

बरामदगी:-

- 1.एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व एक अदद कारतूस जिंदा 315 बोर
- 2.एक प्लास्टिक की जरी कैन के अन्दर करीब 10 ली0 अपमिश्रित शराब व एक प्लास्टिक की थैली के अन्दर करीब 700 ग्राम यूरिया खाद, शराब बनाने के उपकरण।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक –

जंगल ग्राम कृतिया दिनांक 01.02.2021

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह
- 2.का0 469 सालिम
- 3.का0 325 लोकेश कुमार



जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार थाना बहजोई-

मु0अ0सं0 50/2021 धारा 13 जी एक्ट में अभियुक्तगण 1.इरशाद पुत्र मतीम नि0 मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना बहजोई जनपद सम्भल आदि 04 नफर को उ0नि0 मुरलीधर चौहान द्वारा कस्बा बहजोई से मय 1500 रुपये व 52 ताश के पत्तों के साथ गिरफ्तार किया गया ।



अवैध शस्त्र के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार थाना सम्भल-

मु0अ0सं0 44/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त बिलाल पुत्र मुन्ना नि0 मौ0 डेरा सराय थाना सम्भल जनपद सम्भल को मय एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व 01 जिंदा कारतूस के साथ व मु0अ0सं0 45/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त शाने आलम पुत्र यामीन नि0 मौ0 हिलाली सराय थाना सम्भल जनपद सम्भल को मय एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व 01 जिंदा कारतूस के साथ हे0का0 405 रविन्द्र सिंह द्वारा वाजिदपुरम कोल्ड स्टोर के पास से गिरफ्तार किया गया ।



जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार थाना असमोली-

मु0अ0सं0 23/2021 धारा 13 जी एक्ट में अभियुक्तगण 1.फुरकान पुत्र अकबर अली, 2.अमित पुत्र प्रेमपाल निवासीगण ग्राम गुमसानी थाना असमोली जनपद सम्भल को उ0नि0 नरेन्द्र कुमार द्वारा आईटीआई के पास खाली मैदान, ग्राम गुमसानी से मय 1780 रुपये व 52 ताश के पत्तों के साथ गिरफ्तार किया गया ।



सट्टा खेलते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना नखासा-

मु0अ0सं0 43/2021 धारा 13 जी एक्ट (सट्टा) में अभियुक्त भीष्म पुत्र परशुराम नि0 ग्राम हजरतनगर गढ़ी थाना नखासा जनपद सम्भल को एचसीपी राजवीर सिंह द्वारा हजरतनगर गढ़ी चौराहे से मय 440 रुपये व सट्टा पर्ची के साथ गिरफ्तार किया गया ।



01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार थाना रजपुरा-

मुकदमा नं0 344/18 धारा 326/323/504 भादवि में वारंटी अभियुक्त राम प्रसाद उर्फ हरप्रसाद पुत्र रामचरण निवासी बहटकरण थाना रजपुरा जनपद संभल को उ0नि0 रणवीर सिंह द्वारा अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया ।

